

## प्रेस नोट

थाना सुनगढी पुलिस द्वारा 07 नफर अभियुक्तो को एक 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर , 01 अदद तमंचा 12 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद चाकू नाजायज, एक अदद लोहे का सब्बल व लूट के 4,28,000/- रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद स्कूटी व 09 अदद मोबाइल के डकैती की योजना बनाते हुए किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत व अपर पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधो की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम मे क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन मे थाना सुनगढी पुलिस व एसओजी तथा सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 04.01.2023 को जनरल मर्चेन्ट कारोबारी अयाजुद्दीन पुत्र श्री फैयाजुद्दीन निवासी मो0 पंजाबिया थाना कोतवाली पीलीभीत के मुनीम जो वसूल करके ला रहे थे से चौपाल सागर पास बीसलपुर रोड पर अभियुक्तों द्वारा लूट कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना सुनगढी पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारी गणों के निर्देशन पर उक्त घटना के अनावरण करने हेतु थाना सुनगढी तथा एसओजी और सर्विलांस सैल को निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे दिनांक 19.01.2023 को पुलिस बल क्षेत्र मे मामूर थे तभी जानकारी हुई कि मुकदमा उपरोक्त मे लूट के अपराधी पुनः ईदगाह रेलवे फाटक के पास घटना करने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं, इसी सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबन्दी की गयी तो अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर 07 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभियुक्त मौके से भाग गया । अभियुक्तगणों से मु0अ0सं0 12/2023 धारा 392 भादवि0 के लूटे गये रूपयों व अन्य सामग्री बरामद हुई।

पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि अयाजुद्दीन पुत्र श्री फैयाजुद्दीन निवासी मो0 पंजाबिया थाना कोतवाली पीलीभीत के मुनीम इकबाल पुत्र सहादुल्ला नि0 गौहनिया चिडियादाह थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत प्रत्येक बुद्धवार को पैसा वसूल करने आते थे हम लोगो ने प्रमोद की दुकान नगरा थाना बरखेडा पर योजना बनाई कि जब इस बार यह लोग पैसा वसूल करने आयेंगे तब हम इनको रास्ते मे कहीं लूट लेंगे, योजना के अनुसार दिनांक 04.01.2023 को मुनीम इकबाल पुत्र सहादुल्ला नि0 गौहनिया चिडियादाह थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत प्रमोद के पास पैसा वसूल करने आये तभी हम लोग एक मोटरसाइकिल से इनके आगे तथा एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल से इनके पीछे लग गये मौका पाकर चौपाल सागर के पास आकाश ने मोटरसाइकिल मे लात मारकर गिरा दिया तथा हम लोगो ने मुनीम से बैग लूट लिया था और हम सभी लोग बरखेडा की ओर भाग गये थे। हम लोगो ने पैसे बांट लिये थे तथा कुछ पैसे खर्च हो गये, कुछ पैसे आपने हमसे बरामद कर लिये है। शेष पैसा हमारा साथी आकाश लेकर चला गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. नितिन यादव पुत्र वीरपाल सिंह यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम कुरका नगरिया थाना शेरगढ जनपद बरेली
- 2 . प्रिंस यादव पुत्र स्व0 तेजपाल यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी टंडन शोरुम के पीछे मो0 आनन्द नगर कस्बा व थाना बिलासपुर जनपद रामपुर
3. हरेन्द्र पुत्र दुर्गेश चन्द्र उम्र 24 वर्ष निवासी कल्याणपुर चकतीरथ थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत
4. प्रमोद पुत्र देवकीनन्दन उम्र 22 वर्ष निवासी नंगरा चौराहा थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत
5. आकाश उर्फ माईकिल पुत्र छविनाथ उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम नंगरा चौराहा थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत
6. अंकित पुत्र आदेश कुमार उम्र करीब 23 वर्ष नि0 मुशेपुर खुर्द थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत
7. शाहिद पुत्र मोहम्मद रफीक उम्र करीब 24 वर्ष नि0 मो0 भूत बंगला थाना रुद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखंड

**मौके से फरार अभियुक्त:- आकाश पुत्र दुर्गेश चन्द्र नि0 कल्याणपुर चकतीरथ थाना जहानाबाद पीलीभीत बरामदगी का विवरण –**

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
2. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
3. दो अदद चाकू नाजायज ।
4. एक अदद लोहे का सब्बल ।
5. दिनांक 04.01.2023 को बीसलपुर रोड़ पर अभियुक्तगण द्वारा अंजाम दी गयी लूट की घटना से सम्बन्धित 4,28,000/- रुपये ।
6. लूट की धनराशि से खरीदे गये 04 अदद मोबाइल ।
7. घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद स्कूटी ।
8. अभियुक्तगण की जामा तलाशी से उनके पास 05 अदद मोबाइल , पैन कार्ड ,दो एटीएम कार्ड व बैंक की धनजमा पर्ची आदि बरामद हुए ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

<b><u>थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम</u></b>	<b><u>एसओजी/सर्विलांस टीम-</u></b>
1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा	1. निरीक्षक श्री गौरव विश्वनोई प्रभारी सर्विलांस सैल
2. उ0नि0 श्री कमलेश सिंह	2. उ0नि0 श्री जगदीप सिंह मलिक प्रभारी एसओजी
3. उ0नि0 श्री प्रद्युम्न कुमार	3. हे0का0 44 अजब सिंह एसओजी
4. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार	4. हे0का0 98 सौरभ शुक्ला सर्विलांस सैल
5. हे0का0 हरेन्द्र सिंह	5. हे0का0 80 उदयवीर सिंह एसओजी
6. हे0का0 जीतेन्द्र सिंह	6. हे0का0 73 आलोक त्यागी एसओजी
7. हे0का0 राहुल कुमार	7. का0 921 शाहनवाज एसओजी
8. हे0का0 मसरुर अहमद	8. का0 1049 कुलदीप एसओजी
9. का0 विनीत कुमार	9. का0 1253 लेखपाल एसओजी
10. का0 चमन	10. का0 1387 अजय एसओजी
11. का0 नीरज कुमार	11. का0 1260 विशाल चौधरी सर्विलांस सैल
12. कां0 समीर	12. का0चा0 सौरभ शर्मा एसओजी

**अभियुक्त गण के विरूद्ध थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत पर कृत कार्यवाही का विवरण:-**

अभियुक्त गण को विरूद्ध दिनांक 19.01.2023 की घटना के सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत पर मु0अ0सं0-27/2023 धारा-307/399/402 भा0दं0वि0 व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड) वनाम नितिन यादव आदि 08 नफर पीलीभीत पंजीकृत है । तथा थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/23 धारा 392 भादवि मे अभि0गणो की संख्या 03 के स्थान पर 08 होने एवं अभि0गणो के कब्जे से लूटा गया माल बरामद होने के कारण मुकदमा उपरोक्त मे धारा 392 भादवि के स्थान पर 395/397भादवि मे परिवर्तित किया जाता है तथा धारा 412 भादवि की वृद्धि करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दिनांक 04.01.2023 की घटना का सफल अनावरण किया गया है ।

**नोट:-** अभियुक्तगण द्वारा किये गये अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।